

संरक्षण को बढ़ावा देने के लिये काजीरंगा नेशनल पार्क का वभिाजन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में असम के पर्यावरण और वन वभिाग ने काजीरंगा नेशनल पार्क को दो वन्यजीव खंडों में वभिाजति करने की घोषणा की है। लंबे समय से प्रतीक्षति इस कदम का वन अधिकारियों और जनता द्वारा स्वागत कया गया है।

प्रमुख बदि

- काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को पूर्वी असम वन्य जीव खंड और वशि्वनाथ वन्यजीव खंड में वभिाजति कया गया है। उल्लेखनीय है क ब्रह्मपुत्र नदी इन दोनों वन्य जीव खंडों को वभिाजति करती है।
- दो खंडों में वभिाजति होने के बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र में असम के कुल वन क्षेत्र में 160 कमी. की वृद्धि हो जाएगी। इस प्रकार काजीरंगा नेशनल पार्क का कुल क्षेत्रफल 1030 वर्ग कमी. हो जाएगा।
- पूर्वोत्तर असम में वशि्वनाथ चैरयिली के मुख्यालय के साथ वशि्वनाथ वन्यजीव प्रभाग का नरिमाण कया जाएगा जो 160 किलोमीटर दूर होजई में केंद्रीय असम वनीकरण वभिाग को स्थानांतरति हो जाएगा। वास्तव में, इस वनीकरण वभिाग को ही नए वन्यजीव खंड का नाम दया गया है।
- इससे पहले काजीरंगा नेशनल पार्क को पूर्वी असम वन्यजीव प्रभाग द्वारा प्रशासति कया जाता था जसिका मुख्यालय ब्रह्मपुत्र के दक्षिणी तट पर स्थति बोकाखात था।
- इस खंड का नरिमाण 1966 में कया गया था।
- इस वभिाजन से पहले पूर्वी असम वन्यजीव प्रभाग में पाँच श्रेणियाँ- पूर्वी या अग्राटोली, काजीरंगा या कोहोरा, पश्चिमी या बागोरी, बुरापहाड़ और उत्तरी थी। उत्तरी रेंज को छोड़कर सभी ब्रह्मपुत्र के दक्षिणी तट पर हैं।
- अब, 401 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र वाले उत्तरी रेंज को वशि्वनाथ वन्यजीव प्रभाग में अपग्रेड कर दया गया है, जसिमें इसकी चार श्रेणियाँ हैं- पूर्वी या गामरी, केंद्रीय या वशि्वनाथ घाट, पश्चिमी या नागशंकर और अपराध अन्वेषण रेंज।

वभिाजन की आवश्यकता क्यों पड़ी?

- 2015 से फरवरी 2018 के बीच असम में 74 गैंडों का शकार कया गया। इनमें से कई गैंडे काजीरंगा नेशनल पार्क से थे।
- अधिकांश गैंडों का शकार ब्रह्मपुत्र के उत्तरी हसिसे में कया जा रहा था जसिका प्रबंधन करना दक्षिणी हसिसे में तैनात अधिकारियों के लयि मुशकलि था।
- काजीरंगा नेशनल पार्क को दो खंडों में वभिाजति करने का मतलब है क अब एक नरिदेशक (आगराटोली रेंज के पास बोकाखात में स्थति) के तहत दो वभिागीय वन अधिकारी होंगे और बेहतर सतर्कता सुनश्चिति की जा सकेगी।

काजीरंगा नेशनल पार्क

- काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र है। 1905 में इसे पहली बार अधसूचिति कया गया था और 1908 में इसका गठन संरक्षति वन के रूप में कया गया जसिका क्षेत्रफल 228.825 वर्ग किलोमीटर था।
- इसका गठन वशिष रूप से एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के लयि कया गया था, जनिकी संख्या तब यहाँ लगभग 24 जोड़ी थी। उल्लेखनीय है क मारच में की गई गैंडों की पछिली जनगणना के अनुसार, काजीरंगा नेशनल पार्क में लगभग 2,413 गैंडे हैं।
- 1916 में काजीरंगा को एक पशु अभयारण्य घोषति कया गया था और 1938 में इसे आगंतुकों के लयि खोला गया था।
- 1950 में इसे एक वन्यजीव अभयारण्य घोषति कया गया।
- वन्यजीव (संरक्षण) अधनियिम, 1972 के तहत 1974 में काजीरंगा को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधसूचिति कया गया।
- काजीरंगा नेशनल पार्क को वर्ष 1985 में यूनेस्को के वशि्व धरोहर स्थल में शामिल में कया गया था।

